

 पंजाब नैशणल बैंक punjab national bank	जमा /भरणा स्लिप जमा / भुगतान पर्ची Depository/ PAY IN SLIP																
शाखा/शाखा/Branch -----																	
दिनांक Date	<table border="1" style="width: 100%; height: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>																
बचत/करंट/ओडी/सीसी/आरडी/टीएल/डीएल खाता क्र. /क्रेडिट कार्ड सं. बचत/चालू/ओडी/सीसी/आवर्ती/आवधिक ऋण/मांग ऋण खाता सं./ क्रेडिट कार्ड सं. SF/CA/OD/CC/RD/TL/DL A/C No. /Credit Card No.																	
<table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>																	
नाव/नाम/Name: -----																	
दूरध्वनी/ दूरभाष/ Tel: -----																	
₹																	
पैसे/पै/P																	
रकम/राशि/Amount	<table border="1" style="width: 100%; height: 30px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;"></td> </tr> </table>																
रकम (शब्दांमधे)राशि (शब्दों में)/Amount in Words-----																	
चेक नं.व बँकेचे नाव / चेक नं. एवं बैंक का नाम/ Cheque No. & Name of Bank																	
₹																	
पैसे/पै/P																	
<table border="1" style="width: 100%; height: 30px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;"></td> </tr> </table>		<table border="1" style="width: 100%; height: 30px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;"></td> </tr> </table>															
एकूण/कुल/Total	<table border="1" style="width: 100%; height: 30px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;"></td> </tr> </table>																
Officer/Cashier/SWO																	
Punjab National Bank Toll Free 24 hours call online1800 2222/ 1800 103 2222																	

जमा /भरणा स्लिप पैन नं./ पैन नं./PAN No.	जमा / भुगतान पर्ची Depository/ PAY IN SLIP	
किंवा /या/or फॉर्म 60 /FORM60 रु. 50,000/- आणि त्यापेक्षा जास्त रक्कम जमा करण्यासाठी / रु.50,000/- तथा अधिक की धनराशि जमा करने के लिए/For cash Deposit of ₹.50,000/-& above		
रोख जमा/ नकद जमा / CASH DEPOSIT		
नोटा /मूल्यवर्ग /Notes	संख्या /संख्या / No.	₹ पैसे/पै/P
2000 X		
500 X		
200 X		
100 X		
50 X		
20 X		
10 X		
5 X		
नाणी/ सिक्के/ Coins		
एकूण/ कुल/Total		

1.सर्व चेक रेखित असणे आवश्यक आहे./सभी चेक अनिवार्यतः रेखित हो।/All cheques mst be crossed.

2.कृपया चेकच्या मागे आपला खाता क्र. आणि नाव अवश्य लिहा./ कृपया चेक के पीछे अपना खाता सं. और नाम अवश्य लिखें/ Please mention You're a/c. No. and Name on back of the cheque .

3.कृपया रोख रक्कम, बाहेर गाव चे आणि स्थानीय चेक जमा करण्यासाठी वेगवेगळ्या स्लिप वापरा./ कृपया नकद राशि, बाहर गाव के और स्थानीय चेक जमा करने के लिए अलग अलग स्लिप भरे। Please use separate slips for cash deposit , outstation cheques and local cheques.

 पंजाब नैशनाल बैंक punjab national bank	शाखा शाखा Branch -----	दिनांक दिनांक Date: -----																				
बचत/करंट/ओडी/सीसी/आरडी/टीएल/डीएल खाता क्र. /क्रेडिट कार्ड सं. बचत/चालू/ओडी/सीसी/आवर्ती/आवधिक ऋण/मांग ऋण खाता सं./ क्रेडिट कार्ड सं. SF/CA/OD/CC/RD/TL/DLA/C No. /Credit Card No.																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%; height: 30px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 30px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 30px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 30px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 30px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 30px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 30px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 30px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 30px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 30px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 30px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 30px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 30px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 30px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 30px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 30px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 30px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 30px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 30px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 30px;"></td> </tr> </table>																						
नाव/नाम/Name: -----																						
दूरध्वनी/ दूरभाष/ Tel: -----																						
पता/पता /Address : -----																						
रकम(शब्दोंमधे)/राशि (शब्दों में)/Amount (In words) ₹ -----																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> चेक नं./ चेक नं./ Cheque No दिनांक / Date बैंकेचे नाव एवं शाखा / बैंक का नाम एवं शाखा/ Name of Bank & branch </td> <td style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: bottom;">₹</td> <td style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: bottom;">पैसे/पै/P</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> एकूण/कुल/Total </td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			चेक नं./ चेक नं./ Cheque No दिनांक / Date बैंकेचे नाव एवं शाखा / बैंक का नाम एवं शाखा/ Name of Bank & branch	₹	पैसे/पै/P							एकूण/कुल/Total										
चेक नं./ चेक नं./ Cheque No दिनांक / Date बैंकेचे नाव एवं शाखा / बैंक का नाम एवं शाखा/ Name of Bank & branch	₹	पैसे/पै/P																				
एकूण/कुल/Total																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 10px;"> ट्रांजक्शन आई डी/ Transaction ID </td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 10px;"> सी एस ए /CSA मंजूरीदाता अधिकारी/Passing Officer </td> <td></td> </tr> </table>			ट्रांजक्शन आई डी/ Transaction ID		सी एस ए /CSA मंजूरीदाता अधिकारी/Passing Officer																	
ट्रांजक्शन आई डी/ Transaction ID																						
सी एस ए /CSA मंजूरीदाता अधिकारी/Passing Officer																						

इतर सूचना/विविध दिशानिर्देश/ Miscellaneous Instruction :

- कृपया महिन्यातून एकदा तुमचे पासबुक पूर्ण भरून घ्या कृपया अपनी पासबुक महीने में कम से कम एक बार अवश्य अद्यतन कराएं। Please get your Pass Book updated once in a month.
- कृपया कोणत्याही व्यक्तीला तुमच्या खात्याचा तपशील/ इन्टरनेट बँकिंग, यूजर आईडी आणि पासवर्ड / एटीएम / डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड/ मोबाइल बँकिंग/ व्यक्तिगत माहिती उघड करू नका. कृपया अपने खाते के ब्यौरे / इन्टरनेट बँकिंग यूजर आई डी तथा पासवर्ड/ ए टी एम् /डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड/ मोबाइल बँकिंग/ व्यक्तिगत सूचना, किसी अन्य व्यक्ति / स्त्रोत को न दें। Please do not disclose your account details/ internet banking, User ID and Passwords/ ATM Debit Card/ Credit card/ Mobile Banking/ Personal Information to any person.
- सर्व प्रभार/ नियम हे वेळोवेळी बदलू शकतात. कृपया अधिक माहितीसाठी बँकेच्या www.pnbindia.in या वेब साईट ला भेट द्या. बँक समय समय पर सभी प्रभार/ शर्तों में बदलाव कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया बैंक की वेब साईट www.pnbindia.in देखें। All charges/ stipulation are subject to change from time to time. Please visit bank website www.pnbindia.in for further information.
- बचत खाते उघडण्याच्या वेळी, संभावित ग्राहक म्हणून आवश्यक औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतर खालील सुविधादेखील मिळू शकतात. एटीएम / डेबिट कार्ड जारी करणे, इन्टरनेट बँकिंग सेवा, मासिक ई विवरण, एस एम् एस एलर्ट्स, ए एस बी ए (ब्लॉकड रक्कम करून समर्थित आवेदन) बचत निधि खाता खोलते समय, संभावित ग्राहक आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद निम्नलिखित सुविधाएं भी ले सकता है: ए टी एम् / डेबिट कार्ड जारी करवाना, इन्टरनेट बँकिंग सेवाएं, मासिक विवरणी, एस एम् एस अलर्ट, ए एस बी ए (एप्लिकेशन सपोर्टेड बाए ब्लॉकड अमाउंट) At the time of opening Saving Fund Account, the prospective customer may also get the following facilities after completing necessary formalities. Issuance of ATM/ Debit Card, Internet Banking Services, Monthly e-statement, SMS alert, ASBA (Application supported by blocked amount)
- 50,000/- आणि त्याहून अधिक रोख रकमेसाठी कृपया तुमचा पॅन क्रमांक नमूद करा किंवा फॉर्म 60 ची स्वाक्षरी केलेली प्रत सादर करा. 50,000/- रुपये या उससे अधिक नकद जमा के लिए कृपया अपना पैन नंबर बताए, या फॉर्म 60 की हस्ताक्षरित प्रति जमा करें। For cash deposit Rs.50,000/- and above please mention your PAN No. or submit signed copy of Form 60.
- ग्राहकाने डिपॉझिट स्लिपवरील तपशील अचूक आहेत आणि चेक/इंस्ट्रुमेंट/रोख रकमेच्या तपशीलांशी जुळत आहेत याची खात्री करणे बंधनकारक आहे. ग्राहक यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि जमा पर्ची पर विवरण सटीक हैं और चेक/ उपकरण/ नकद के विवरण से मेल खाते हैं। The customer is obliged to ensure that the details on the deposit slip are accurate and match with the details of the cheque/ instrument/ cash.
- खोट्या आश्वासनांना बळी पडू नका, संशयास्पद योजनांपासून सावध रहा. संदिग्ध योजनाओं से झूठे वादे का शिकार ना बने। Do not fall prey to false promises, beware of dubious schemes.